

व्यावसायिक परीक्षण रिपोर्ट (प्रारंभिक)  
COMMERCIAL TEST REPORT  
(INITIAL)

संख्याNo: Th-44/1234  
माहMonth: December, 2020  
Validity: 30.11.2027



**MAHARASHTRA ENGINEERING WORKS MD MAIZE DEHUSKER  
(TRACTOR PTO OPERATED)**



भारत सरकार

**Government of India**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

**Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare**

दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

**Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute**

ट्रैक्टर नगर, गार्लदिन्ने-515 731, जिला: अनंतपुर (आं. प्र.)

**Tractor Nagar, Garlandinne-515 731, District: Anantapur (A.P.)**

**[An ISO 9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE]**

Website: <http://srfmtti.dacnet.nic.in/>

E-mail: [fmti-sr@nic.in](mailto:fmti-sr@nic.in)

Tele./FAX: 08551-286441

<b>Th-44/1234</b>	<b>MAHARASHTRA ENGINEERING WORKS MD MAIZE DEHUSKER (TRACTOR PTO OPERATED)</b>	<b>COMMERICAL (ICT)</b>
-------------------	---	-----------------------------

Manufacturer : M/s. Maharashtra Engineering works,  
Bodwad Road, Malkapur-443 101,  
Dist-Buldhana, Maharashtra, India.

Name of Applicant : The Manufacturer

**MAHARASHTRA ENGINEERING WORKS MD MAIZE DEHUSKER  
(TRACTOR PTO OPERATED)**

Report No. : Th-44/1234

Month: December

Year: 2020



**Government of India  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare  
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare  
Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute  
Tractor Nagar, Garladinne-515 731, District: Anantapur (A.P.)  
[An ISO 9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE]**

Telephone: 08551-286441  
Website: <http://srfmtti.dacnet.nic.in/>

Fax: 08551-286441  
E-mail: [fmti-sr@nic.in](mailto:fmti-sr@nic.in)

<b>Th-44/1234</b>	<b>MAHARASHTRA ENGINEERING WORKS MD MAIZE DEHUSKER (TRACTOR PTO OPERATED)</b>	<b>COMMERICAL (ICT)</b>
-------------------	---	-----------------------------

Type of test : INITIAL COMMERCIAL

Name of Machine : Maize Dehusker

Period of test : 27.10.2020 to 18.12.2020

Test Report No. : Th-44/1234

Month / Year of release : December, 2020



- i) The results reported in this report are observed values and no corrections have been applied for atmospheric and site conditions.
- ii) The data given in this report pertain to the particular machine randomly selected by testing authority at applicant site.
- iii) The results presented in this report do not in any way attribute to the durability of the machine.
- iv) This Test Report should not be reproduced in part or full without prior permission of the Director, Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Garladinne, Anantapur (A.P.).
- v) This is a report on Commercial Test of Maize Dehusker named "**Maharashtra Engineering Works MD Maize Dehusker (Tractor PTO Operated)**". **This report is valid up to 30.11.2027, Vide Ministry's order no. 13-24/2018-M&T (I&P) dated 19.09.2018.**

### SELECTED CONVERSIONS

S. No	Units	Conversion Factor
<b>1</b>	<b>Force</b>	
	1 kgf	9.80665 N
		2.20462 lbf
<b>2</b>	<b>Power</b>	
	1 hp	1.01387 metric hp (Ps) 745.7 W
	1 Ps	735.5 W
	1 kW	1.35962 Ps
<b>3</b>	<b>Pressure</b>	
	1 psi	6.895 kPa
	1 kgf/cm <sup>2</sup>	98.067 kPa = 735.56 mm of Hg
	1 bar	100 kPa = 10 N/cm <sup>2</sup>
	1 mm of Hg	1.3332 m-bar

Th-44/1234	MAHARASHTRA ENGINEERING WORKS MD MAIZE DEHUSKER (TRACTOR PTO OPERATED)	COMMERICAL (ICT)
------------	--	---------------------

**TESTING AUTHORITY:**

B.N. DIXIT AGRICULTURAL ENGINEER	
Dr. P.P. RAO DIRECTOR	

**12. APPLICANT'S COMMENTS**

Para No.	Our reference	Applicant's comments
12.1	Page 4	We will make all possible necessary changes in future production
12.2	11.1	We will make all possible necessary changes as per your recommendations
12.3	11.4	In future machines we will provide the guard as per your recommendations
12.4	11.5	We will make all possible necessary changes in future production
12.5	11.6	We will make all possibilities as per your recommendations
12.6	11.7	We will make labelling plate as per your recommendations
12.7	11.8	We will make the manual to meet the requirement of IS 8132 : 1999 (reaffirmed 2004)